

दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड
मध्यावधि परीक्षा- पाठ्यक्रम (2023-24)

विषय-हिंदी कक्षा-5

कुल अंक- 50

1. अपठित गद्यांश (6 अंक)

2. साहित्य- (रिमझिम भाग-5) (20 अंक)

पाठ-2 फ़सलों के त्योहार

पाठ-5 जहाँ चाह वहाँ राह

पाठ-6 चिट्ठी का सफ़र

पाठ-9 एक माँ की बेबसी (कविता)

उपर्युक्त पाठों से पठित गद्यांश/पद्यांश, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम-शब्द, प्रश्नोत्तर, पुस्तक-अभ्यास तथा कॉपी में करवाए गए सभी अभ्यास

3. व्याकरण- (व्याकरण पुष्प भाग-5) (18 अंक)

पाठ-2 वर्ण-विचार

पाठ-3 शब्द-विचार

पाठ-4 संज्ञा

पाठ-15 विलोम-शब्द (किताब में दी गई सभी सूचियाँ)

पाठ-19 विराम चिह्न

पाठों के पीछे के अभ्यास तथा कक्षा में करवाए गए सभी अभ्यास

4. लेखन कौशल- (6 अंक)

पाठों पर आधारित रचनात्मक लेखन/अनौपचारिक पत्र लेखन

नोट- पाठ्यक्रम में दिए गए साहित्य एवं व्याकरण पाठों का ध्यानपूर्वक पठन करें।

DELHI PUBLIC SCHOOL, MATHURA ROAD
CLASS V
ENGLISH MID-TERM EXAMINATION SYLLABUS (2023-24)

M.M. 50

I. Section A- READING SKILL: Unseen Passage (6 marks)

II. Section B- GRAMMAR & WRITING SKILL:

GRAMMAR (18 marks)

1. Prepositions
2. Kinds of Nouns
3. Adjectives

- *Kinds of Adjectives
- *Comparison of Adjectives
- * Order of Adjectives

Practice the concepts from the 'Cornerstone' book exercises.

Revise the written work done in the notebook.

WRITING SKILL : Based on the Literature chapters. (6 marks)

III. Section C – LITERATURE (20 marks)

1. The Spider and the Fly
2. Memories of a Visit
3. Washing Clothes with My Mom

*Question - Answers, Word-meanings, Opposites, Reference to Context, Back exercises, Objective type questions (True/False, Complete the sentences etc.).

*Read the chapters thoroughly.

4. How the Little Kite Learned to Fly (Poem)

Learn the poem and poet's name

DELHI PUBLIC SCHOOL, MATHURA ROAD

MATHEMATICS MID-TERM EXAM SYLLABUS

CLASS V (2023-24)

MM: 50 MARKS

I) UNIT-3 MULTIPLES AND FACTORS

1. Understanding multiples
2. Understanding factors
3. Divisibility rules 2, 3, 5, 9 and 10
4. Unique number, Prime and Composite Numbers
5. Expressing an even composite number as the sum of two prime numbers.
6. Prime Factorization: Expressing a composite number as the product of its prime factors by Factor Tree Method.
7. Highest Common Factor (HCF)
 - a) Properties of HCF and Understanding HCF
 - b) Finding the HCF by:
 - i) Factor method
 - ii) Prime factorization method
 - iii) Long division method
8. Lowest Common Multiple (LCM)
 - a) Properties of LCM and Understanding LCM
 - b) Finding the LCM by:
 - i) Prime factorization method
 - ii) Short division method
9. Exercise 3.1, 3.2, 3.3 and 3.5

Excluding Ex. 3.4, 3.6 and 3.7

II) **UNIT-4 FRACTIONS**

1. Types of fractions.
2. Equivalent fractions
3. Reducing a fraction to its lowest term.
4. Comparing and ordering Like and Unlike Fractions
5. Addition of Like , Unlike and Mixed Fractions.
6. Story Sums (Word Problems) on Addition of Fractions.
7. Subtraction of Like, Unlike and Mixed Fractions.
8. Story Sums (Word Problems) on Subtraction of Fractions.
9. Exercise: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (Only Q1 to Q9) and 4.7

Excluding Ex. 4.8 to Ex 4.12

III) Tables 2 to 20

**THOROUGHLY REVISE ALL THE RELEVANT TOPICS DONE IN THE
NOTEBOOK.**

DELHI PUBLIC SCHOOL, MATHURA ROAD

SYLLABUS FOR MID TERM EXAM (2023-24)

ENVIRONMENTAL STUDIES

CLASS -V

CHAPTER-5 ANIMAL LIFE

(MM: 50)

- Food chains.
- Interdependence.
- Wildlife and its protection.
- Domestic animals and their uses.

CHAPTER-6 ANIMAL SENSES

- Hearing
- Taste
- Smell
- Touch
- Sight

CHAPTER-7 OUR INTERNAL ORGANS

- The Skeletal System.
- The Muscular System.
- The Digestive System.
- The Respiratory System.
- The Circulatory System.
- The Nervous System.

The exam will have objective and subjective questions.

a) Objective Questions

- MCQ's.
- Fill in the blanks.
- Give one word answer.

- **True/ False.**
- **Match the columns.**
- **Correct the statement.**
- **Word Search.**
- **Label the diagram.**

b) Subjective Questions

- **Answer the following questions.**
- **Give reasons.**
- **Draw and label the diagram.**

List of diagrams:

- 1) Simple Food chain (Draw and label)**
- 2) Jacobson's Organ (Label only)**
- 3) Digestive System (Label only)**
- 4) Respiratory System (Draw and label)**
- 5) Skeletal System (Label only)**
- 6) Nervous System (Label only)**

Read the lessons thoroughly. Revise the work done in book as well as the notebook.